


tynor

D.V.T. Stocking
D.V.T. Medias
D.V.T. Stockage
D.V.T. جورب

One Pair



REF I-66 & 69

1



HOW TO USE:

- Put on stockings first thing in the morning before you get out of bed. Your legs have the least amount of swelling early in the morning.
- Use a little baby powder or corn starch on your legs. This may help the stockings slide up.
- For open-toe stockings, use applicator to slide the stocking over your foot.
- Slide the stockings onto your arms with hand reaching the heel area.
- Holding the extra heel material, turn the stockings inside out till the heel.
- Broaden the mouth of the fabric cave so formed and pull till it reaches the heel.
- Unfold the stockings from heel to knee, in a manner that fabric rolls on the fabric and not on bare skin.
- Pull the upper part of the stockings from knee till half of mid thigh.
- Pull the upper part of the stockings from half of mid thigh till mid thigh.
- Smoothen the wrinkles from bottom upwards with both hands, gloved or otherwise till you get absolutely stretched garment on the leg.

2



कैसे उपयोग करें:

- सुबह सबसे पहले उठते अपने बिस्तर से बाहर निकलने से पूर्व स्टॉकिंग्स पहने। सुबह आपके पैरों में सबसे कम सूजन होती है।
- अपनी टांगों पर थोड़ा बेबी पाउडर या मक्का स्टार्च का प्रयोग करें, इससे स्टॉकिंग्स को ऊपर चढ़ाने में मदद मिलेगी।
- खुले पैर वाली स्टॉकिंग्स को चढ़ाने के लिए एप्लीकेटर का उपयोग करें।
- स्टॉकिंग्स को अपने हाथों से इस तरह चढ़ाएँ कि हाथ एड़ी क्षेत्र तक पहुँचें।
- अतिरिक्त एड़ी के भाग को पकड़ते हुए स्टॉकिंग्स को उल्टी दिशा में मोड़ें।
- गठित कपड़े के गुफा के मुँह को व्यापक करते हुए स्टॉकिंग्स को एड़ी तक खींचें।
- एड़ी से घुटने तक स्टॉकिंग्स को इस प्रकार ऊपर खींचें की त्वचा पर स्पर्श करने के बजाये स्टॉकिंग्स एक के ऊपर एक चढ़ें।
- स्टॉकिंग्स के ऊपरी भाग को घुटने से मध्य जांच के बीच तक खींचें।
- स्टॉकिंग्स के ऊपरी भाग को मध्य जांच के बीच से जांच के मध्य तक खींचें।
- दोनों हाथ से दरस्तानों के साथ अथवा बिना पहने स्टॉकिंग्स को नीचे से ऊपर की ओर जब तक झुर्रियां खत्म न हो जाएँ तथा आपको अपनी टांग पे बिल्कुल फैंला कपड़ा ना मिले खींचें।

3



CÓMO UTILIZAR

- Ponerse las medias a primera hora de la mañana, antes de salir de la cama. Las piernas tienen la mínima hinchazón temprano de mañana.
- Aplicar talco para bebés o harina de maíz en las piernas. Eso puede ayudar a que las medias se deslicen mejor hacia arriba.
- Para medias de pie abierto, usar un artillugio especial para deslizar la media sobre el pie.
- Poner las medias sobre los brazos con la mano estirada hacia la parte del talón.
- Sosteniendo la tela extra de la parte del talón, girar las medias de dentro hacia fuera hasta llegar al talón.
- Ampliar la boca de la media y tirar de la media hasta que llegue al talón.
- Extender las medias desde el talón a la rodilla, de manera que la tela se vaya extendiendo sobre la misma tela y no sobre la piel desnuda.
- Tire de la parte superior de las medias de la rodilla hasta la mitad de la mitad del muslo.
- Tire de la parte superior de las medias de la mitad de la mitad del muslo hasta la mitad del muslo.
- Alisar las arrugas de abajo hacia arriba con ambas manos, ya sea con o sin guantes hasta que la prenda quede completamente estirada a lo largo de la pierna.

4



COMMENT UTILISER

- Mettez des bas tôt le matin avant de vous lever du lit. Vos jambes sont le moins enflées tôt le matin.
- Utilisez un peu de poudre pour bébé ou de fécule de maïs sur vos jambes. Cela peut aider les bas à glisser.
- Pour les bas à bout ouvert, utilisez l'applicateur pour glisser le bas sur le pied.
- Faites glisser les bas sur vos bras avec la main atteignant la zone du talon.
- En tenant le talon supplémentaire, retournez les bas jusqu'au talon.
- Élargissez la bouche de la caverne en tissu ainsi formée, tirez jusqu'à ce qu'elle atteigne le talon.
- Dépliez le bas du talon de genou, de manière à rouler le tissu sur le tissu et non sur la peau nue.
- Tirez la partie supérieure des bas du genou jusqu'à la moitié de la moitié de la cuisse.
- Tirez la partie supérieure des bas de la moitié de la moitié de la cuisse jusqu'à la moitié de la cuisse.
- Lissez les plis du bas vers le haut avec les deux mains, gantées ou autres, jusqu'à avoir un vêtement parfaitement étiré sur la jambe.

5



6



7



كيفية الاستخدام

- قم بإرتداء الجوربين قبل النهوض من الفراش وقيل أن تقوم بأي شيء. حيث أن ورم الرجلين يكون في أدنى مستوياته في الصباح
- استخدم مسحوق لتطيف بشرة الأطفال أو نشا الذرة على رجليك. قد يساعد هذا في انزلاق الجوربين لأعلى
- بالنسبة للجوراب المفتوحة عند الأصابع، استخدم أداة خاصة لتزوير الجوراب على قدمك.
- قم بفرد الجوربين على ذراعيك بحيث تصل إلى منطقة الكعبين بهما
- اقلب الجانب الداخلي للجوراب لجهة الخارج حتى تصل إلى منطقة الكعب وذلك مع الإمساك بمنطقة الكعب الإضافية بالجوراب.
- قم بتوسعة فتحة الجوراب واسحب حتى تصل إلى الكعب
- قم بفرد الجوربين من العقب إلى الركبة، بحيث ينسحب قماش الجوراب على نفسه وليس على الجلد العاري.
- سحب الجزء العلوي من جوراب الركبة حتى من نصف من منتصف الفخذ
- سحب الجزء العلوي من جوراب من نصف من منتصف الفخذ حتى منتصف الفخذ.
- قم بتسوية الانكماشات من الأسفل وبتجاه الأعلى مستخدماً كلتا يديك سواء كنت مرتدياً قفازين أم لا حتى تتم تسوية الجوراب بالكامل على الرجل.

Medical compression stockings provide graduated compression, which is strongest at the ankle and it gradually decreases as we move up. This controlled and graduated compression effectively stops any abnormal back flow of blood. They compress the outer walls of superficial veins to make them strong and prevent varicose veins.

CONSTRUCTION:

Woven on the state of art circular looms, from high quality, Nylon and spandex yarn, to get a four way stretching seamless stockings with anatomical shape of the calf and a gradual taper from top to bottom.

The top end has dots of silicon to make it slippage proof.

COPING WITH VARICOSE VEINS:

- Avoid prolonged standing
- Take regular walks
- Keep leg elevated while sitting if possible.
- Wear Compression stockings before you get out of the bed while your leg is still elevated.
- Loose weight if overweight.
- Avoid constricting clothes such as girdles around the leg.

APPLICATIONS:

- Tired, aching legs
- Edema of ankle. Foot or leg
- Chronic peripheral venous insufficiency
- Varicose veins
- Spider Veins (mild varicosities)
- Deep Vein Thrombosis (DVT)
- Lymphedema
- Phlebitis
- Economy Class Syndrome (ECS)
- Lipodermatosclerosis
- Pregnancy
- Aching and heavy feeling in legs
- Blood clots, post surgery or injury.

CONTRAINDICATIONS:

Patients with peripheral obstructive arterial disease, peripheral neuropathy, congestive heart failure, septic phlebitis or oozing dermatitis should not wear Varicose Stockings.

CAUTION/INSTRUCTIONS:

- If you use lotion on your legs, let it dry before you put on the stockings.
- Use a little baby powder or corn starch on your legs. This may help the stockings slide up.
- Put on rubber dishwashing gloves. Use your hands to adjust the stocking and smooth it out.
- For open-toe stockings, use a special gadget to slide the stocking over your foot.

INSTRUCTIONS:

- Use this product under strict guidance of a qualified doctor.
- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
 - Impaired sensation.
 - Impaired blood flow.
 - Allergy rash or itching.
 - Pain increases or persists.
- Consult your doctor in case of concurrent use with another medical device.
- Excessive physical exertion can lead to a risk of rise in blood pressure. Take extra precaution
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.

मेडिकल कम्प्रेसन स्टॉकिंग्स द्वारा नियमित संकुचन प्रदान किया जाता है और यह टखने पर सबसे शक्तिशाली होता है और धीरे-धीरे ऊपर जाते हुए कम होता जाता है। यह नियमित और क्रम से होने वाला संकुचन प्रभावी रूप से रक्त के आरामान्य पुनर्प्रवाह को रोकता है व बाहरी नसों को संकुचित करते हैं जिससे वे शक्तिशाली होती है और अपरिफ्त शिरा होने से बचाव होता है।

निर्माण:

उत्तम तकनीक के गोलाकार करघे पर बुने जाने वाले, उच्च गुणवत्ता के नायलोन व स्पैन्डेक्स यार्न के साथ, आपको चारों तरफ से खिंचाव प्रदान करते हैं यह बिना सिलाई के स्टॉकिंग जो कि जघनचिडिका की शारीरिक संरचना के अनुसार आकार ले लेते हैं और नियमित ऊपर से नीचे तक घटता जाता है। इसके ऊपरी शिरे पर सिलिकॉन के बिन्दु होते हैं जिससे यह फिसलनरधी बन जाता है।

वेरिकोज वेन्स / अपरिफ्त शिराओं के साथ सही प्रकार से रहना:

- लम्बे समय तक खड़ा होना टालें
- नियमित पैदल चलें
- बैठते समय जब भी संभव हो, पैरों को उठाकर रखें
- सोकर उठने से पहले संकुचन चुरावे पहनें, जब आपके पैर आडी स्थिति में हों
- यदि वजन अधिक है तो कम करें
- संकोचक यस्त्रों को न पहनें जैसे पैरों के आस पास बंधनी आदि

अनुप्रयोग:

- थके व दुखने वाले पैर
- टखना, पंजा या पैर में एडेमा (द्रव का जमाव)
- असाध्य सतही शिरापरक कमी
- वेरिकोज वेन्स / अपरिफ्त शिरा
- स्पायडर वेन्स (सौम्य अपरिफ्तित)
- डीप वेन थ्रोम्बोसिस (डी वी टी)
- लिम्फेडेमा
- फ्लेबिटिस
- इकोनॉमी क्लास सिन्ड्रोम (ई सी एस)
- लिपोडेर्मेटोस्क्लेरोसिस
- गर्भावस्था
- पैरों में दर्द व भारी लगना
- रक्त के थक्के, शल्यक्रिया अथवा जखम के बाद

अंतर्विरोध:

पेरिफेरल ऑब्स्ट्रक्टिव आर्टरियल बीमारी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, सेप्टिक फ्लेबिटिस अथवा ऊझिंग डर्माटिटिस के मरीजों को कम्प्रेसन स्टॉकिंग्स नही पहनने चाहियें।

चेतावनी / सलाह:

- यदि आप अपने पैरों पर लोशन का उपयोग करते हैं, उसके सूखने के पश्चात स्टॉकिंग्स पहनें।
- अपने टांगों पर थोड़ा बेबी पाउडर या मक्का स्टार्च का प्रयोग करें, इससे स्टॉकिंग्स को ऊपर चढ़ाने में मदद मिलेगी।
- रबर डिशवाशिंग दस्ताने पहनें। अपने हाथों का उपयोग करके स्टॉकिंग्स से झुर्रियों को खत्म करें।
- खुले पैर वाली स्टॉकिंग्स को चढ़ाने के लिए एप्लीकेटर का उपयोग करें।

निर्देश:

- एक योग्य चिकित्सक की सलाह पर उपयोग करें।
- इन स्थितियों में, उपयोग बंद कर दें और एक योग्य चिकित्सक की सलाह लें:
 - दुर्बलता का अनुभव
 - रक्त प्रवाह में कमी
 - एलर्जी से लाल चकत्ते या खुजली
 - दर्द बढ़ता है या बना रहता है
- किसी अन्य मेडिकल डिवाइस के साथ-साथ उपयोग की स्थिति में अपने चिकित्सक की सलाह लें।
- अत्यधिक शारीरिक मेहनत करने से रक्तचाप बढ़ने की अशंका होती है तो इस संबंध में अतिरिक्त सावधानी बरतें।
- डिवाइस के दुरुपयोग या अनुचित उपयोग से प्रतिकूल प्रभाव और प्रभावशीलता में कमी उत्पन्न हो सकती है।
- बॉक्स पर वर्णित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।
- बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

Las Médica Medias De Compresión permiten ejercer una compresión graduada, siendo máxima en la zona del tobillo y que baja gradualmente a medida que se asciende por la pierna. Esta compresión controlada y graduada detiene con eficacia cualquier reflujo anormal de sangre. Comprimen las paredes externas de las venas superficiales para fortalecerlas y evitar la formación de varices.

CONSTRUCCIÓN:

Confeccionadas en telares de máquinas circulares con tecnología de vanguardia, de alta calidad, Hilo de nailon y elastano, para obtener medias sin costuras y con estiramiento en cuatro direcciones, con forma anatómica de la pantorrilla y una compresión gradual de abajo hacia arriba.

La punta superior tiene puntos de silicona para evitar el deslizamiento.

CONSEJOS EN CASOS DE VARICES EN LAS VENAS:

- Evitar estar de pie durante mucho tiempo
- Caminar con regularidad
- Mantener la pierna elevada mientras se está sentado, siempre que sea posible.
- Llevar medias de compresión antes de salir de la cama mientras la pierna todavía está en posición elevada
- En caso de sobrepeso, tratar de perder peso
- Evitar llevar prendas ceñidas, tales como fajas alrededor de la cintura

APLICACIONES:

- Piernas fatigadas, doloridas
- Edema de tobillo. Pie o pierna
- Insuficiencia venosa periférica crónica
- Varices en las venas
- Arañas vasculares (varicosidad leve)
- Trombosis venosa profunda (DVT)
- Linfedema
- Flebitis
- Síndrome de la clase turista (ECS)
- Lipodermatosclerosis
- Embarazo
- Piernas pesadas y doloridas
- Coágulos de sangre, cuidado postoperatorio o lesión.

CONTRAINDICACIONES:

Los pacientes con enfermedad arterial obstruiva periférica, neuropatía periférica, fallo cardíaco congestivo, flebitis séptica o dermatitis supurativa no deben llevar medias para las varices.

PRECAUCIÓN / RECOMENDACIÓN :

- Si ha aplicado alguna loción sobre sus piernas, deje que se seque antes de ponerse las medias.
- Aplicar talco para bebés o harina de maíz en las piernas. Eso puede ayudar a que las medias se deslicen mejor hacia arriba.
- Ponerse guantes para lavar vajillas. Usar las manos para ajustar la media y alisarla.
- Para medias de pie abierto, usar un artilugio especial para deslizar la media sobre el pie.

INSTRUCCIONES:

- Usar este producto bajo estricta guía de un médico.
- Dejar de usar y consultar con el médico, en caso de
 - Pérdida de sensibilidad
 - Alteración del flujo sanguíneo
 - Erupción cutánea o picor
 - Aumento o persistencia del dolor
- Consultar con el médico en caso de que también se esté usando otro dispositivo médico.
- El esfuerzo físico excesivo puede conducir a un riesgo de aumento de la sangre pressure. Take precaución adicional
- El mal uso o el uso inapropiado del dispositivo puede disminuir la eficacia del mismo y producir efectos adversos.
- Seguir detenidamente las instrucciones indicadas en la caja.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Les bas de compression médicaux offrent une compression progressive, qui est la plus forte à la cheville et diminue progressivement à mesure que nous avançons. Cette compression contrôlée et graduée arrête efficacement tout reflux sanguin anormal. Ils compriment les parois extérieures des veines superficielles pour les rendre plus résistantes et prévenir les varices.

FABRICATION:

Tissés sur des métiers à tisser circulaires à la pointe de la technologie, en fils de nylon et spandex de haute qualité, pour obtenir des bas sans couture extensibles dans les quatre sens avec une forme anatomique du mollet et une réduction progressive du haut en bas.

L'extrémité supérieure a des points de silicium pour le rendre antidérapant.

TRAITER LES VEINES DE VARICOSE:

- Évitez de rester debout longtemps
- Faire des promenades régulières
- Gardez la jambe surélevée en position assise si possible
- Portez des bas de compression avant de sortir du lit alors que votre jambe est encore surélevée
- Perdre du poids si en surpoids
- Évitez de serrer les vêtements comme les ceintures autour de la jambe

APPLICATIONS :

- Jambes fatiguées et douloureuses
- Oedème (gonflement léger de la cheville/du pied)
- Insuffisance veineuse périphérique chronique
- Varices
- Varicosités légères
- Thrombose veineuse profonde (TVP)
- Lymphoedème
- Phlébite
- Syndrome de la classe économique (SCE)
- Lipodermatosclérose
- Grossesse
- Sensation de douleur et de lourdeur dans les jambes
- Caillots sanguins, post-chirurgie ou blessure

CONTRE-INDICATIONS:

Les patients présentant une maladie artérielle obstructive périphérique, une neuropathie périphérique, une insuffisance cardiaque congestive, une phlébite septique ou une dermatite suintante ne doivent pas porter de bas de compression médicaux.

ATTENTION / RECOMMANDATION:

- Si vous utilisez de la lotion sur vos jambes, laissez-la sécher avant de mettre les bas.
- Utilisez un peu de poudre pour bébé ou de fécule de maïs sur vos jambes. Cela peut aider les bas à glisser.
- Mettez les gants de lavage de plat en caoutchouc, employez vos mains pour ajuster le stockage et pour le liser dehors.
- Pour les bas à bout ouvert, utilisez l'applicateur pour glisser les bas sur le pied.

INSTRUCTIONS :

- Utilisez ce produit sous la direction stricte d'un médecin qualifié.
- Cesser l'utilisation et demander conseil à un médecin qualifié, en cas de
 - Sensation altérée
 - Circulation sanguine avec facultés affaiblies
 - Allergie éruption cutanée ou démangeaisons
 - La douleur augmente ou persiste
- Consulter votre médecin en cas d'utilisation simultanée avec un autre appareil médical.
- Un effort physique excessif peut entraîner un risque d'augmentation de la pression artérielle. Prendre des précautions supplémentaires
- Une mauvaise utilisation ou une utilisation incorrecte de l'appareil peut entraîner des effets indésirables et une perte d'efficacité.
- Suivez attentivement les instructions mentionnées sur la boîte.
- Tenir hors de portée des enfants.

توفر جوارب الضغط الطبية ج يبلغ أقصاه عند الكاحل وينخفض تدريجياً مع التحرك لأعلى. يوقف هذا الضغط المتحكم به والمدرج أي تدفق ارتدادي للدم بشكل فعال. حيث تضغط الجوارب على الجدران الخارجية للأوردة المسطحة لتقويتها ومنع توسع الأوردة.

التركيب:

منسوجة بأحدث الأنوال الدائرية ومصنوعة من نايلون عالي الجودة وخيوط من الألياف اللدنة، للحصول على جوارب أنيقة تتمدد الأربعة اتجاهات مع ضمان ملائمة التركيب التشريحي للربلة وضغط تدريجي من الأعلى إلى الأسفل. تحتوي النهاية العلوية على نقاط من السيليكون لضمان عدم انزلاق الجوارب.

التخلص من الأوردة المصابة بالدوالي:

- تجنب الوقوف لفترات طويلة
- مارس المشي بشكل منتظم
- حافظ على رفع الرجل أثناء الجلوس إذا أمكن ذلك
- قم بارتداء جوارب ضاغطة قبل النهوض من الفراش ورجلك لا تزال مرفوعة
- قم بخفض الوزن الزائد في جسمك
- تجنب ارتداء الملابس الضيقة مثل الأحزمة التي تلف حول الأرجل

الاستخدام:

- إرهاق الأرجل وأمامها
- وذمة الكاحل أو القدم أو الرجل
- القصور المزمن في الوظائف الوريدية الطرفية
- دوالي الأوردة
- توسع الأوردة الصغيرة (الدوالي الخفيفة)
- تخثر الأوردة العميقة
- الوذمة الليلية
- الالتهاب الوريدي
- أعراض تورم الأرجل بسبب طول الرحلات الجوية
- تصلب الشحمي السحلي
- الحمل
- آلام الرجلين وثقل الحركة بهما
- التجلطات الدموية، التي تعقب العملية الجراحية أو الإصابة

موانع الاستعمال:

يبغى عدم ارتداء جوارب الدوالي بالنسبة للمرضى الذي يعانون من مرض الانسداد الشرياني الطرفي أو الاعتلال العصبي الطرفي أو الفشل القلبي الاحتقاني أو الالتهاب الوريدي الإنتاني أو التهاب الجلد الرشحي.

الخطرا توصية :

- إذا استخدمت غسولا على رجليك، فتركه حتى يجف قبل ارتداء الجوربين
- استخدم مسحوق تلطيف بشرة الأطفال أو نشا الذرة على رجليك. قد يساعد هذا في انزلاق الجوربين لأعلى
- قم بارتداء قفازين من المطاط مستخدمين في غسل الأطباق. استخدم يديك لتعديل موضع الجوربين وتسوية الانكماشات بهما
- بالنسبة للجوارب المفتوحة عند الأصابع، استخدم أداة خاصة لتمير الجورب على قدمك

إرشادات:

- استخدم هذا المنتج في ظل توجيه دقيق من طبيب مؤهل
- توقف عن استخدام المنتج واحصل على توجيه من طبيب مؤهل في الحالات التالية.
- القصور الحسي
- قصور في تدفق الدم
- طفق الأرجية أو الحكة
- زيادة الألم أو استمراره
- استشر الطبيب الخاص بك في حالة استخدام جهاز طبي آخر بشكل متواصل
- المجهود البدني المفرط يمكن أن يؤدي إلى مخاطر ارتفاع ضغط الدم. اتخاذ الاحتياطات اضافية
- قد تؤدي إساءة استخدام الجهاز أو الاستخدام الخاطئ له إلى حدوث آثار عكسية وانخفاض فعالية الجهاز
- التزم جيدا بالإرشادات المذكورة في العبلة
- احفظ الجهاز بعيدا عن متناول الأطفال

POLICY FOR DEFECTIVE GOODS:

All products manufactured by Tynor Orthotics (P) Limited carry six months warranty against material or manufacturing defect. Defective units must be returned to Tynor Orthotics (P) Limited through the Super Dealer concerned for replacement, along with duly filled " Product Return Form" . Liability of Tynor Orthotics (P) Limited shall be limited to the cost of product only.

दोषपूर्ण माल के लिए नीति :

टायनौर ओर्थोटिक्स प्र० लि० द्वारा निर्मित सभी उत्पाद सामग्री या विनिर्माण दोष के खिलाफ छह महीने की वारंटी हैं। दोषपूर्ण इकाइयों विधिवत भरे "उत्पाद रिटर्न फॉर्म के साथ, प्रतिस्थापन के लिए चिंतित सुपर व्यापारी के माध्यम से टायनौर ओर्थोटिक्स प्र० लि० को वापस कर देना चाहिए। टायनौर ओर्थोटिक्स प्र० लि० का दायित्व केवल उत्पाद की लागत को सीमित हैं।

DECLARACIÓN SOBRE PRODUCTOS DEFECTUOSOS:

Todos los productos fabricados por Tynor Orthotics (P) Limited tienen una garantía de seis meses contra materiales defectuosos o defectos de fabricación. Las unidades defectuosas se deben devolver a TOPL a través del distribuidor a cargo de las devoluciones, junto con el formulario "Formulario de devolución de producto" debidamente llenado. La responsabilidad de TOPL se limita al coste del producto únicamente.

POLITIQUE POUR LES MARCHANDISES DÉFECTUEUSES:

Tous les produits fabriqués par Tynor Orthotics (P) Limited sont couverts par une garantie de six mois contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Les unités défectueuses doivent être retournées à Tynor Orthotics (P) Limited par le Super Dealer concerné pour être remplacées, ainsi que le «Formulaire de retour du produit» dûment rempli. La responsabilité de Tynor Orthotics (P) Limited sera limitée au coût du produit seulement.

السياسة المعنية بالمنتجات المعيبة

تتمتع جميع المنتجات التي تصنعها شركة أورتونيكس (ب) المحدودة بضمان مدته ستة أشهر ضد عيوب المادة أو عيوب التصنيع يجب إعادة الوحدات المعيبة إلى تينور أورتونيكس (ب) المحدودة من خلال الموزع الرئيسي المعني بالاستبدال مع الطلب إرجاع منتج "تم تعبئة في الوقت المناسب.

تتخصص مسؤولية تينور أورتونيكس (ب) المحدودة في تكلفة المنتج فقط

PRODUCT CARE



Hand wash with mild detergent and water below 30°C without wringing.



Dry in shade on a flat surface.



Do not dry-clean.



Do not Iron.



Do not bleach.

SYMBOL EXPLANATION



Batch code



Manufacturing date



Manufacturer




Catalogue number

D.V.T. Stocking D.V.T. Medias

D.V.T. Stockage D.V.T. جورب

- Durable
- Latex Free
- Anti-slip Silicone Liner
- Graduated Compression
- Anatomic for uniform compression
- See leaflet inside for more details
- Duraderas
- Sin látex
- Punta revestida con silicona para evitar el deslizamiento
- La compresión graduada
- Forma anatómica para ejercer una compresión uniforme
- Ver el interior de prospecto para más det allés
- Résistant
- Sans latex
- Doublure ensilicone antidérapante
- Compression graduée
- Anatomique pour une compression uniforme
- Voir la brochure à l'intérieur pour plus de détails
- متين
- اللاتكس الحرة
- بطانة مقاومة للانزلاق مصنوعة من السيليكون
- ضغط تخرج
- ملائم للتركيب التشريحي لتوفير ضغط موحد
- انظر منشور داخل لمزيد من التفاصيل


Knee High



SIZE	INCHES	CENTIMETERS
S	9.8 to 11.8	25 to 30
M	11.4 to 13.4	29 to 34
L	13.0 to 15.0	33 to 38
XL	14.6 to 16.5	37 to 42


Measure circumference around the calf approximately 6 inches below the knee.

Thigh High



SIZE	INCHES	CENTIMETERS
S	14.6 to 16.9	37 to 43
M	16.5 to 18.9	42 to 48
L	18.5 to 20.9	47 to 53
XL	20.5 to 22.8	52 to 68

Measure circumference around mid thigh, approximately 6 inches above the knee.




CAUTION: Read user instructions before using the product

Pressure Range: 15-20 mmHg

EC REP

MT Promedt Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert
Germany
tel.: +49 (0) 6894 581020
fax: +49 (0) 6894 581021
e-mail: info@mt-procons.com
www.mt-procons.com

Contents: Polyamide, Spandex, Silicone
Contenidos: Poliamida, Spandex, Silicona
Contenu: Polyamide, Spandex, Silicium
المكونات: بولي أميد، سبيانديكس، سيليكون



tynor

Tynor Orthotics (P) Ltd.

169-170, Sec 82, Ind. Area, JLPL, Mohali-160 055, (Pb) India
Email: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com
Customer Care: +91 172 5288111

Qty: 2 N

U31

M.COMP.ST.THIGH.HI.C2(PAIR)
SIZE: M (42-48 cm)

REF 170BAZ
LOT U31
05/04/2019

8 903424 120069
MADE IN INDIA

Color: BEIGE
HSN: 6115.10.00
TYNOR ORTHOTICS PVT.LTD
169-170, Sec 82, Ind. Area, JLPL
Mohali(Punjab) - 160055, INDIA
Customer Care: +91 172 5288111
Email: care@tynor.in

ISO 9001 CRISIL W.H.O. G.M.P. ISO 13485 CE US FDA registered